

थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा दिनांक 18.07.2022 को हुई टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

दिनांक 18.07.2022 को वादी मनोज कुमार पुत्र श्री सुभाष निवासी मौजमपुर थाना उसैहत जिला बदायूं के साथ दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छल करके एक मोबाइल ओपो कम्पनी व एक पिट्टू बैग जिसमें कपडे व कागजात थे ले जाने के सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर दिनांक 19.07.2022 को थाना सिविल लाइन जिला बदायूं पर मु0अ0सं0 417/2022 धारा 406/420 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ । मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बदायूं के आदेश अनुपालन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर बदायूं व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर बदायूं के निर्देशन में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अभि0गण 1.असलम पुत्र लाल खां निवासी वार्ड नं0 10 सखानू थाना अलापुर बदायूं 2. नूर मोहम्मद उर्फ चालू पुत्र बांके निवासी वार्ड नं0 9 सखानू थाना अलापुर बदायूं । आज दिनांक 22.07.2022 को लूट की योजना बना रहे थे कि तभी पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गयी तो अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया तथा पुलिस द्वारा मौके पर अभियुक्त असलम उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त नूर मोहम्मद उपरोक्त अधरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा । पकडे अभियुक्त असलम उपरोक्त के कब्जे से छल पूर्व कपट से ले जायी गये मोबाइल फोन व पिट्टू बैग मय कपडे व एक अदद तमन्चा 12 बोर मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा 12 बोर कारतूस बरामद हुए । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 424/2022 धारा 398/401/307 भादवि बनाम1.असलम पुत्र लाल खां निवासी वार्ड नं0 10 सखानू थाना अलापुर बदायूं 2. नूर मोहम्मद उर्फ चालू पुत्र बांके निवासी वार्ड नं0 9 सखानू थाना अलापुर बदायूं व मु0अ0सं0 425/2022 धारा 3/25(1b)A A ACT बनाम असलम उपरोक्त पंजीकृत किया गया तथा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 417/2022 धारा 406/420 भादवि का सफल अनावरण किया गया । अभियुक्त असलम उपरोक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है अभियुक्त नूर मोहम्मद उर्फ चालू उपरोक्त की गिरफ्तारी शेष है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1.असलम पुत्र लाल खां निवासी वार्ड नं0 10 सखानू थाना अलापुर बदायूं ।

फरार अभियुक्त का नाम

1.नूर मोहम्मद उर्फ चालू पुत्र बांके निवासी वार्ड नं0 9 सखानू थाना अलापुर बदायूं

बरामदगी

1. एक मोबाइल ओपो कम्पनी, 2. एक पिट्टू बैग जिसमें इस्तेमाली कपडे है, 3. एक अदद देशा तमन्चा
12 बोर मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ ।